

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-सा.-30052024-254441  
SG-DL-W-30052024-254441प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 04]	दिल्ली, मई 24—मई 30, 2024, बृहस्पतिवार/ज्येष्ठ 3—ज्येष्ठ 9, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 57
No. 04]	DELHI, MAY 24—MAY 30, 2024, THURSDAY/JYAISHTHA 3—JYAISHTHA 9, 1946	[N.C.T.D. No. 57

भाग —IV  
PART —IVभाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों  
की अधिसूचनाएं  
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
Notifications included in Part-Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIराज्य चुनाव आयोग  
(दिल्ली एवं चण्डीगढ़)  
आदेश  
दिल्ली, 27 मई, 2024

सं. एफ. 1(148)/रा.चु.आ./प्रशा./2022/16093 .—जबकि दिल्ली नगर निगम के पार्षदों के चुनाव हेतु आम चुनाव-2022 दिनांक 04.12.2022 को हुए तथा परिणाम की घोषणा दिनांक 07.12.2022 के साथ प्रत्याशियों को निर्वाचित किया गया।

2. और जबकि दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 (इसके पश्चात् नियमावली कहा गया है) के नियम 103 में कहा गया है कि किसी वार्ड के चुनाव का प्रत्येक प्रत्याशी स्वयं या अपने चुनाव एजेंट के माध्यम से चुनाव पर, उसके नामांकन की तिथि से तथा उसके परिणामों की घोषणा के बीच किए गए खर्च का अलग से तथा सही लेखा-जोखा रखेगा या अपने अधिकृत व्यक्ति या चुनाव एजेंट से रखवाएगा।



3. और जबकि दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 के नियम 104 में यह प्रावधान है कि;

**104 लेखा-जोखा रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना:—**(1) प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को वार्ड के चुनाव में, लौटे उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की दिनांक से दस दिनों के भीतर, अपने चुनाव खर्च का लेखा जोखा जो उसके द्वारा या उसके चुनाव एजेंट द्वारा रखे गये खाते की सच्ची प्रति हो, रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करानी होगी।

(2) प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले वार्ड के उम्मीदवार अपने चुनाव व्यय के बनाये और जमा किये गए सम्बंधित खाते की प्रमाणिकता के प्रतीक के रूप में एक हलफनामा फार्म 20 के रूप में भी दाखिल करेगा।

4. और जबकि निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या (2) में विनिर्दिष्ट चुनाव लड़ने वाले 04 प्रत्याशियों ने उनके नाम के सामने के कॉलम संख्या (3) में उल्लिखित नगर निगम वार्ड के चुनाव के बारे में अपना चुनाव खर्च का लेखा-जोखा उक्त नियम 104 के अन्तर्गत यथापेक्षित रूप में उनके नाम के सामने कॉलम संख्या (5) में दिये गये विवरण के अनुसार जमा नहीं किया है।

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम व पता (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वार्ड संख्या और नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि तथा नंबर	नियम 110 के तहत अयोग्यता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शबनम पत्नी मो0 अब्दुल कलान, मकान न:- ए-2948 सी.सै. स्कूल, बारात घर ब्लॉक फेस-02, मैट्रो विहार, होलम्बी कंला, नई दिल्ली-110082	03 होलम्बी कंला	10662/24.03.23 12071/27.06.23	प्रत्याशी चुनाव खर्च का लेखा जोखा यथापेक्षित समय तथा पद्धति के अनुसार जमा करने में विफल रहा। वह दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) चुनाव नियमावली, 2012 के नियम 108(5) के तहत "कारण बताओ नोटिस" का जवाब देने में भी विफल रहा। इस प्रकार से उसके पास चुनाव खर्चों का लेखा जोखा न प्रस्तुत करने का कोई अच्छा कारण तथा औचित्य नहीं है।
2	दीक्षा पत्नी/पुत्री श्री राहुल मिश्रा म0न0 141, ब्लॉक एफ, इन्दर एन्कलेव, फेस-2, किराडी सुलेमान नगर, दिल्ली-110086	40 निठारी	11202/27.04.23 12110/27.06.23 13762/10.11.23	उपरोक्तानुसार
3	पूजा पत्नी/पुत्री श्री राकेश कुमार कोली, म0न0 एल-398ए, जे. जे. कॉलोनी, वजीरपुर, अशोक विहार, दिल्ली-110052	71 किशनगंज	11512/17.05.23 12113/27.06.23	उपरोक्तानुसार
4	चित्रा शालिनी पत्नी/पुत्री श्री डालचन्द मकान न:- 49/3, देवली गाँव, नई दिल्ली-110080	218 सुन्दर नगरी	10697/24.03.23 12105/27.06.23 13454/17.10.23	उपरोक्तानुसार

5. और जबकि, उक्त प्रत्याशियों को नियम 108 (5) के तहत चुनाव खर्च का लेखा जोखा नियमावली में यथापेक्षित समय सीमा तथा पद्धति अनुसार जमा न किये जाने के लिए उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 04 में दर्शित तिथियों में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे कि वे अपने अपेक्षित दस्तावेज तथा स्पष्टीकरण दें और ब्यौरा न देने का यदि कोई कारण हो तो, जैसा कि नियम 104 में कहा गया है, को बताने के लिए कहा गया था और यह भी कहा गया था कि कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में उनकी विफलता पर नियम 110 के प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि चुनावी खर्चों का लेखा - जोखा जमा करने में असफलता उन्हें अयोग्य ठहराएगी तथा उन्हें इस तरह अयोग्यता की तारीख से छह साल की अवधि के लिए दिल्ली नगर निगम में पार्षद के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर देगी।

6. अब, मैं, बंश राज राम, सचिव, राज्य निर्वाचन, आयोग दिल्ली इस मामले के समस्त पहलुओं पर विचार उपरांत संतुष्ट हूँ कि उपरोक्त उम्मीदवारों के पास अनिवार्य रूप से चुनाव खर्चों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफलता के लिए कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है। एतद् द्वारा पूर्वोक्त नियमों के तहत आवश्यक, उपरोक्त उम्मीदवारों जिनके नाम पूर्वोक्त



तालिका के कॉलम नंबर 2 में निर्दिष्ट है, को नियम 110 के प्रावधानों के तहत, इस आदेश की तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करता हूँ।

यह आदेश दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 110 के तहत राजपत्र में भी प्रकाशित किया जा रहा है।

बंश राज राम, सचिव

## STATE ELECTION COMMISSION

(NCT of Delhi & UT Chandigarh)

### ORDER

Delhi, the 27th May, 2024

**No. F. 1(148)/SEC/Admin/2022/16093.**—WHEREAS General Election-2022 for the election of Councillors to the Municipal Corporation of Delhi was held on 04/12/2022 and the candidates were elected on declaration of result on 07/12/2022.

2. AND WHEREAS Rule 103 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 (hereinafter called the Rules) prescribes that every candidate at an election to a ward shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election, incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he/she has been nominated and the date of declaration of the result;

3. AND WHEREAS Rule 104 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 provides that;

**104. Lodging of accounts with the Returning Officer:** - (1) Every contesting candidate at an election of a ward shall, within ten days from the date of election of the returned candidate, lodge with the Returning Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his election agent.

(2) Every contesting candidate at an election to a ward shall also file an affidavit in Form-20 in token of authenticity of the account of election expenses as maintained & submitted by him.

4. AND WHEREAS, the following 04 contesting candidates, specified in column No. 2 of the table hereunder, for election to the Municipal Corporation of Delhi and wards mentioned in column No. 3 of the said table hereunder against their respective names failed to lodge the account of their election expenses, as required under Rule-104 ibid, as per details shown in column No. 5 of the said table against their respective names;

1	2	3	4	5
S.No.	Name & Address of Candidate (Sh/Smt./Km.)	Number and Name of Ward	Dispatch No. & date of show cause notice	Ground of disqualification under Rule 110
1.	Shabnam W/o Abdul Kalan R/o A 2948 Sr. Sec. School, Community Hall of Block Ph-02, Metro Vihar, Holambi Kalan, New Delhi-110082	03 Holambi Kalan	10662 / 24.03.23 12071 / 27.06.23	Candidate has failed to lodge Account of Election Expenses in the prescribed manner & time. He/She has also failed to respond to the show cause notices sent by the Commission under Rule 108 (5) of Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 and therefore has no good reason and justification for the failure to file the election expenditure accounts as prescribed.
2.	Diksha W/D/o Rahul Mishra R/o H.No. 141 Block-F Inder Enclave Phase-II, KirariSuleman Nagar, Delhi-110086	40 Nithari	11202 / 27.04.23 12110 / 27.06.23 13762 / 10.11.23	-do-



3.	Pooja W/D/o Rakesh Kr. Koli R/o L-398A, JJ Colony, Wazirpur, Ashok Vihar, Delhi-110052	71 Kishan Ganj	11512 / 17.05.23 12113 / 27.06.23	-do-
4.	ChitraShalini W/D/o Dal Chand R/o 49/3, Deoli Village, New Delhi-110080	218 Sundar Nagri	10697 / 24.03.23 12105 / 27.06.23 13454 / 17.10.23	-do-

5. AND WHEREAS Show Cause Notices were issued to the above candidates under Rule 108(5) of the aforesaid rules, on the dates mentioned in Col.4 of the above table with the directions to submit their requisite documents and explanation with reason for not submitting account of election expenses as required under Rule 104 of the aforesaid Rules and that why action should not be taken against him / her as per provisions of Rule 110 of the said Rules for their failure to respond show cause notices. He/She was clearly informed that failure to lodge the Accounts of election expenses/explanation would disqualify him/her for being and to be chosen as a Councillor to Municipal Corporations of Delhi for a period of six years from the date of such disqualification.

6. NOW, THEREFORE, I, Bansh Raj Ram, Secretary, State Election Commission, NCT of Delhi having considered all the aspects of the matter and satisfied that there is no good reason or justification for the aforesaid candidates for failure to lodge account of election expenses within the time and in the manner required mandatorily under the aforesaid Rules, hereby disqualify the candidates as specified in column No. 2 of the aforesaid table for a period of six years from the date of this order, under the provisions of Rule 110 of the said Rules.

This order is also being published in the official Gazette as required under Rule 110 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012.

BANSH RAJ RAM, Secy.